

पानी के हीटर पर डटे रहें।

आपातकालीन समय में अपने पानी के हीटर से पानी कैसे प्राप्त करें;

बर्फीले तूफान या भूकंप के समय में आपके पानी की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद हो सकती है।

यदि ऐसा हो तो आपके पानी का हीटर आपको तीस से अस्सी गैलन पानी पीने, खाना बनाने एवम् सफ़ाई के लिए प्रदान कर सकता है। टैंक रहित हीटर में यह विकल्प नहीं होगा।

पानी के हीटर से पानी प्राप्त करने से पहले :



- अपने पानी के हीटर का पता लगा लें ; ज़्यादातर हीटर तहखाने में या मुक्त खड़े घर के गराज में, और फ्लैट और निर्मित घरों की अलमारी में होते हैं।
- पानी की आपूर्ति बंद कर दें : विशेष रूप से भूकंप के समय ये सुनिश्चित कर लें की पानी की टंकी का पानी पीने योग्य है एवं इसकी शुद्धता में कोई कमी नहीं है। आपात कालीन पानी को बंद करने के वाल्व, अक्सर तहखानों में, घर के अंदर रेंगने की जगह यानी (क्रॉल स्पेस), गैरेज या फिर बाहरी हिस्से में, घर की नींव के पास पाए जाते हैं। फ्लैटों/अपार्टमेंट में अक्सर ये वाल्व बिल्डिंग के बाहर पाए गए पानी के मुख्य लाइन के पास पाए जाते हैं।

पानी के हीटर से पानी निकलने के तरीके :

① हीटर की बिजली का स्रोत बंद कर दें। यह कारण आपकी सुरक्षा के लिए अति आवश्यक है। आपको इन वस्तुओं की आवश्यकता पड़ सकती है टॉर्च, सुरक्षा चश्मा, पेंच कस यानी (स्कूड्राइवर) और दस्ताने यानी (ग्लव्स) इसलिए इन्हें आसानी से पहुँचने वाले स्थान पर रखें।

बिजली से चलने वाले हीटर : हीटर की बिजली आपूर्ति सही बटन द्वारा बंद कर दें। (सही सर्किट ब्रेकर को पहले से ही सावधानीपूर्वक पहचान लें।)

गैस से चलने वाले पानी के हीटर : बंद और चालू करने वाले बटन को पहचान कर उसके knob को पायलट सेटिंग पर घूमा दें - पूरी तरह से बंद ना करें।



- 2 पानी की आपूर्ति बंद कर दें। इसको बंद करने का वाल्व ढूँढ लें और उसे दाँयी तरफ़ तब तक घुमाएँ जब तक ये रुक ना जाये। यह वाल्व अक्सर पानी के हीटर के ऊपरी हिस्से में होता है।
- 3 पानी के हीटर में हवा आने दें। ऐसा आप छूटने वाले वाल्व जो टंकी के बाजू में होता है उसके द्वारा कर सकते हैं (हैंडल को पलट दें जिससे यह सीधा ऊपर या बाहर आ जाए) घर के मुख्य स्थान पर या ऊपर की मंज़िल में पानी की कलियाँ चालू कर दें। ऐसा करने से पानी के बहाव को सहायता मिलेगी।
- 4 अपने वाटर हीटर के तल पर नाली वाल्व का पता लगायें और आवश्यकता अनुसार अपनी टंकी से पानी छोड़ें। पानी को पकड़ने के लिए नाली वाल्व spigot के नीचे साफ़ पानी प्राप्त करने के लिये साफ़ पात्र लगायें और पेंच को बायीं तरफ़ घुमा दें। ऐसा बहुत सावधानी से करें क्योंकि पानी बहुत गरम हो सकता है। अपनी सुरक्षा के लिए हाथों में दस्ताने पहने और सुरक्षा चश्मा भी पहने। अब पेंच को दायीं तरफ़ घुमा कर पानी के बहाव को रोक दें। ये पूरी प्रक्रिया तब तक करें जब तक टंकी खाली ना हो जाये।

जो पानी आप खाना बनाने या पीने के लिये इस्तेमाल करना चाहते हैं उसका ठीक से उपचार कर लें। इन तरीकों से :

- पानी को एक मिनट तक उबाल लें इससे ठंड करें फिर इस्तेमाल करें।

— या फिर —

- पानी को साफ़ पात्र में डाल कर इसका सुगन्धरहित ब्लिच से व्यवहार कर लें। पानी के पात्र को साफ़ करने के लिए इसमें चार कप पानी में एक चम्मच ब्लिच डाल इससे एक से हिलायें ताकि यह सारी सतह तक पहुँच जाये। इस मिश्रण को फेंक दे और पात्र को एक से सूखा लें। पात्र को पूरी तरह पानी से भर लें और इसमें 1/8 चम्मच ब्लिच प्रति गैलन के हिसाब से मिला लें।

— या फिर —

- व्यक्तिगत पानी के फ़िल्टर से बैक्टीरिया और परजीवी निकाल लें। निर्माता निर्देशों को एक से पढ़ लें और उनका पालन करें।

पानी की टंकी के रखरखाव के तरीके :

टंकी के पानी की उपलब्धता एवम् गुणवत्ता टंकी के रखरखाव के तरीके पर निर्भर है।

अपने पानी के हीटर को दीवार से अच्छी तरह कस लें जिस से यह दीवार से एवम् आपके पानी के मध्यम से जुड़ा रहे।

अपने पानी के हीटर को हर साल पूरी तरह खाली कर लें। ऐसा करने से तलछट का निर्माण कम से कम होगा और यह पानी की गुणवत्ता को भी सुधरेगा

The Regional Water Providers Consortium Portland, OR महानगरिए क्षेत्र में पीने की पानी की नियोजन प्रबंधन और लचीलेपन में अग्रणी जानकारी प्रदान करता है। अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क करें।

और जानकारी संसाधन प्राप्त यहाँ करें : www.regionalh2o.org

